



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072025-264893
CG-DL-E-22072025-264893

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3295]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 22, 2025/आषाढ़ 31, 1947

No. 3295]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 22, 2025/ASHADHA 31, 1947

कोयला मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2025

का.आ. 3368(अ).—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 4198(अ), तारीख 25 सितम्बर, 2024 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 25 सितम्बर, 2024 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 557.49 हेक्टर (लगभग) या 1377.57 एकड़ (लगभग) भूमि और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकारों के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और झारखंड सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि, इससे संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट 557.49 हेक्टेयर (लगभग) या 1377.57 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए;

अतः अब केन्द्रीय सरकार कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि, अनुसूची में यथा वर्णित 557.49 हेक्टेयर (लगभग) या 1377.57 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाते हैं।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक धारक संख्या एनएमडीसी/सीडी/टोकीसूद/सीबीए एसईसी(9)/24/06 तारीख 28 नवंबर, 2024 का निरीक्षण उपायुक्त, हजारीबाग 825301, झारखण्ड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक का संगठन, कोयला मंत्रालय, स्कोप मीनार, 5वीं तल, कोर 2, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110092 के कार्यालय में या एनएमडीसी लिमिटेड, कोल डिवीजन, दूसरा तल, जेएसफसी भवन, कडरू, राँची 834002, झारखण्ड के कार्यालय में या एनएमडीसी लिमिटेड, 10-3-311/ए, कैसल हिल्स, मसाब टैंक, हैदराबाद 500028 के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

टोकीसूद नार्थ कोल माईन

अंचल- बड़कागांव, जिला हजारीबाग, झारखण्ड

[रेखांक धारक संख्या: एनएमडीसी/सीडी/टोकीसूद/सीबीए एसईसी(9)/24/06 तारीख 28 नवंबर, 2024]

सभी अधिकार:

क्रम संख्या	मौजा/ग्राम* का नाम	पटवारी सर्किल/जेएल संख्या *	तहसील/ पीएस*	जिला	सरकारी भूमि		निजी भूमि		टिप्पणी
					हेक्टेयर में	एकड़ में	हेक्टेयर में	एकड़ में	
1	आंगो	8	बड़कागांव	हजारीबाग	109.04	269.45	25.58	63.20	भाग
2	उरेज	8	बड़कागांव	हजारीबाग	100.28	247.80	72.12	178.21	भाग
3	देवगढ़	8	बड़कागांव	हजारीबाग	175.33	433.23	75.14	185.68	भाग
					384.65	950.48	172.84	427.09	

कुल क्षेत्र: $(384.65+172.84) = 557.49$ हेक्टेयर (लगभग) या $(950.48+427.09) = 1377.57$ एकड़ (लगभग)

1. ग्राम आंगो में अर्जित किए प्लॉट संख्या:

1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1570, 1573, 1607, 1609, 1610, 1626, 1628, 1740, 1741, 1742, 1566, 1568, 1569, 1576, 1580, 1581, 1605, 1606, 1608, 1579(भाग), 1563, 1583, 1585, 1586, 1587, 1589, 1590, 1593, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1603, 1616, 1617, 1621, 1622, 1623, 1629, 1632, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658(भाग), 1660(भाग), 1661(भाग), 1663(भाग), 1664(भाग), 1665(भाग), 1666(भाग), 1667(भाग), 1572, 1574, 1612, 1614, 1615, 1564, 1567, 1619, 1624, 1625, 1630, 1631, 1633, 1634, 1635, 1636, 1638, 1639, 1648, 1649, 1650, 1565, 1571, 1575, 1577, 1584, 1588, 1591, 1594, 1595, 1602, 1613, 1620, 1627, 1637, 1659, 1671, 1433(भाग), 1440(भाग), 1441(भाग), 1442(भाग), 1556(भाग), 1557(भाग), 1558(भाग), 1559(भाग), 1560(भाग), 1561(भाग), 1582(भाग), 1651(भाग), 1668(भाग), 1739(भाग), 1592, 1604, 1611, 1618।

2. ग्राम उरेज में अर्जित किए प्लॉट संख्या:

162, 178, 319, 320, 374, 375, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 397, 401, 403, 404, 405, 406, 411, 412, 413, 417, 423, 424, 441, 442, 595, 596, 102, 188, 210, 241, 244, 247, 273, 329, 339, 348, 367, 372, 431, 526, 529, 532, 538, 556, 557, 558, 559, 560, 101(भाग), 239(भाग), 167, 185, 541, 564, 200, 206, 207, 370, 373, 420, 433, 534, 535, 539, 209, 238, 243, 245, 249, 332, 334, 337, 350, 355, 356, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 368, 416, 418, 435, 528, 537, 548, 549, 550, 553, 555, 111, 163, 176, 184, 186, 208, 211, 212, 213, 214, 242, 246, 248, 254, 267, 269, 289, 290, 303, 328, 331, 338, 345, 349, 351, 354, 394, 395, 409, 419, 430, 432, 434, 438, 479, 522, 524, 525, 527, 530, 531, 536, 544, 546, 552, 585, 587, 588, 172,

181, 282, 285, 347, 415, 443, 523, 547, 180, 187, 190, 196, 286, 335, 446, 450, 543, 171, 325, 352, 369, 371, 393, 396, 561, 569, 106, 164, 169, 179, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 253, 278, 280, 283, 378, 440, 445, 448, 521, 540, 542, 545, 562, 610, 408, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 591, 592, 593, 170, 449, 191, 192, 288, 291, 294, 295, 297, 298, 300, 301, 302, 316, 317, 318, 340, 341, 342, 407, 321, 324, 326, 327, 399, 400, 422, 425, 426, 427, 428, 436, 174, 175, 166, 183, 270, 376, 533, 182(भाग), 252, 274, 275, 103, 104, 105, 165, 168, 173, 177, 189, 201, 250, 251, 277, 279, 281, 284, 287, 293, 296, 299, 322, 323, 330, 333, 336, 343, 344, 353, 357, 358, 379, 386, 398, 402, 410, 414, 421, 429, 437, 444, 447, 554, 563, 586, 589, 590, 594, 611, 158(भाग), 2(भाग), 215(भाग), 240(भाग), 271(भाग), 304(भाग), 306(भाग), 307(भाग), 315(भाग), 451(भाग), 466(भाग), 551(भाग), 609(भाग), 272, 276, 292, 346, 377, 439।

3. ग्राम देवगढ़ में अर्जित किए प्लॉट संख्या:

153, 417, 424, 425, 442, 445, 456, 460, 473, 480, 516, 524, 543, 568, 836, 887, 894, 900, 901, 903, 905, 907, 417/817, 417/818, 417/819, 432/815, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 438, 446, 454, 820, 821, 895, 898, 899, 451, 440, 441, 515, 906, 908, 212, 418, 419, 421, 427, 434, 435, 452, 457, 462, 464, 470, 472, 476, 479, 525, 549, 838, 550(भाग), 218, 222, 437, 211, 213, 447, 448, 514, 433, 436, 453, 455, 458, 468, 474, 475, 545, 546, 547, 548, 420, 422, 423, 429, 444, 449, 450, 461, 463, 465, 478, 510, 511, 513, 518, 530, 532, 837, 889, 890, 55, 428, 431, 466, 467, 469, 477, 439, 533, 534, 544, 891, 892, 414, 443, 459, 508, 509, 519, 87, 134, 156, 160, 183, 319, 324, 342, 344, 348, 359, 387, 396, 486, 490, 492, 536, 813, 839, 73, 74, 826, 868, 869, 870, 871, 872, 7, 273, 284, 494, 852, 851(भाग), 390, 340, 349, 355, 369, 412, 413, 506, 165, 171, 173, 174, 175, 177, 278, 293, 368, 401, 411, 482, 483, 484, 88, 106, 109, 117, 118, 138, 148, 162, 170, 261, 275, 276, 279, 280, 281, 298, 299, 320, 333, 346, 347, 350, 353, 358, 360, 364, 393, 395, 499, 108, 119, 161, 76, 84, 86, 151, 159, 184, 233, 258, 270, 292, 305, 312, 318, 325, 336, 338, 339, 345, 351, 354, 361, 363, 378, 379, 388, 397, 487, 489, 493, 505, 124, 259, 283, 321, 335, 337, 385, 540, 56, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 43, 47, 50, 51, 54, 58, 75, 77, 83, 90, 94, 95, 96, 97, 102, 104, 111, 112, 116, 125, 129, 131, 135, 137, 139, 149, 150, 178, 182, 195, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 307, 309, 311, 313, 314, 326, 327, 399, 504, 812, 822, 827, 828, 829, 830, 833, 834, 840, 862, 864, 875, 876, 878, 63, 64, 71, 72, 81, 91, 128, 192, 193, 202, 203, 204, 209, 520, 521, 811, 879, 882, 883, 884, 3, 4, 32, 33, 36, 52, 101, 107, 187, 188, 196, 197, 198, 306, 310, 398, 863, 877, 430, 155, 158, 372, 374, 375, 376, 367, 392, 21, 26, 44, 48, 57, 67, 68, 78, 79, 80, 92, 100, 103, 105, 115, 120, 122, 123, 126, 127, 152, 169, 181, 247, 251, 253, 254, 256, 257, 294, 328, 332, 357, 362, 400, 141, 142, 143, 144, 146, 166, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 246, 287, 288, 289, 297, 322, 323, 341, 343, 365, 498, 500, 537, 538, 42, 53, 60, 61, 62, 65, 66, 69, 70, 199, 200, 207, 231, 394, 823, 831, 832, 873, 881, 2, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 34, 35, 41, 163, 176, 190, 191, 210, 263, 264, 265, 329, 825, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 861, 850(भाग), 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 145, 167, 248, 249, 250, 301, 302, 303, 304, 381, 382, 383, 384, 389, 391, 408, 485, 496, 27, 85, 185, 266, 277, 386, 488, 491, 535, 814, 82, 154, 157, 168, 230, 241, 242, 243, 244, 295, 316, 370, 371, 377, 380, 501, 45, 49, 98, 114, 179, 186, 252, 255, 330, 373, 404, 405, 406, 225, 226, 227, 228, 291, 402, 9, 40, 46, 56, 59, 89, 99, 110, 113, 121, 130, 133, 136, 140, 147, 164, 172, 180, 189, 194, 201, 205, 206, 208, 214, 223, 224, 229, 232, 245, 260, 262, 274, 282, 286, 290, 296, 300, 308, 315, 317, 331, 334, 352, 403, 407, 409, 410, 415, 416, 426, 432, 471, 495, 497, 502, 503, 507, 522, 523, 529, 539, 542, 816, 835, 853, 860, 865, 866, 867, 874, 880, 886, 888, 893, 896, 897, 902, 904, 1(भाग), 526(भाग), 687(भाग), 848(भाग), 849(भाग), 885(भाग), 824, 12, 28, 93, 285, 481, 512, 531, 20, 366, 517, 356।

सीमा वर्णन:

सीमा रेखा	सीमा विवरणी
बिंदु ए1- ए2- ए3- ए4- ए5- ए6- ए7- ए8 -ए9- ए10- ए11- ए12- ए13- ए14- ए15- ए16- ए17- ए18- ए19- ए20- ए21- ए22- ए23- ए24- ए25- ए26- ए27- ए28- ए29- ए30- ए31- ए32- ए33 (बिंदु ए34- ए35- ए36- ए37- ए38- ए39- ए40- ए41 के द्वारा सीमांकित क्षेत्र को छोड़कर)।	रेखा की शुरुआत बिंदु ए1 से प्रारंभ होती है और ए2- ए3- ए4- ए5- ए6- ए7- ए8 -ए9- ए10- ए11- ए12- ए13- ए14- ए15- ए16- ए17- ए18- ए19- ए20- ए21- ए22- ए23- ए24- ए25- ए26- ए27- ए28- ए29- ए30- ए31- ए32- ए33- से होते हुए प्रारंभिक बिंदु ए1 पर मिलती है। (सीमांकित रेखा को छोड़कर, जो ए34 से प्रारंभ होती है तथा ए35- ए36- ए37- ए38- ए39- ए40- ए41 से होकर गुजरती हुई प्रारंभिक बिंदु ए34 पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/8/2023-एलएआईआर]

भवानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd July, 2025

S.O. 3368(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 4198(E) dated the 25th September 2024, issued under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 25th September 2024, the Central Government gave notice of its intention to acquire 557.49 hectares (approximately) or 1377.57 acres (approximately) land and all rights in or over such land specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government after considering the report aforesaid and after consulting the Government of Jharkhand, is satisfied that the lands measuring 557.49 hectares (approximately) or 1377.57 acres (approximately) and all rights in or over such land as described in Schedule appended hereto should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the land measuring 557.49 hectares (approximately) or 1377.57 acres (approximately) and all rights in or over such land as described in Schedule are hereby acquired.

The plan bearing number NMDC/CD/TOKISUD/CBA SEC(9)/24/06 dated the 28th November, 2024 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Deputy Commissioner,, Hazaribagh 825301, Jharkhand or in the office of the Coal Controller, Coal Controller's organization, Ministry of Coal, Scope Minar, 5th Floor, Core II, Laxmi Nagar, Delhi 110092, or in the office of the NMDC Limited, Coal Division, 2nd Floor, JSFC Bhawan, Kadru, Ranchi 834002, Jharkhand or in the office of the NMDC Limited, 10-3-311/A, Castle Hills, Masab Tank, Hyderabad 500028.

SCHEDULE**Tokisud North Coal Mine,****Circle- Barkagaon, District Hazaribagh, Jharkhand****[Plan bearing number: NMDC/CD/TOKISUD/CBA SEC(9)/24/06 dated the 28th November, 2024]****All Rights:**

Sr No.	Name of Mouja/ village*	Patwari Circle/ JL Number*	Tahsil/PS*	District	Government Land		Private Land		Remarks
					Hectare	Acre	Hectare	Acre	
1.	Ango	8	Barkagaon	Hazaribagh	109.04	269.45	25.58	63.20	Part
2.	Urej	8	Barkagaon	Hazaribagh	100.28	247.80	72.12	178.21	Part
3.	Deogarh	8	Barkagaon	Hazaribagh	175.33	433.23	75.14	185.68	Part
					384.65	950.48	172.84	427.09	

Total area: (384.65+172.84) = 557.49 hectares (approximately) or (950.48+427.09) = 1377.57 acres (approximately)

1. Plot numbers acquired in village Ango:

1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1570, 1573, 1607, 1609, 1610, 1626, 1628, 1740, 1741, 1742, 1566, 1568, 1569, 1576, 1580, 1581, 1605, 1606, 1608, 1579(P), 1563, 1583, 1585, 1586, 1587, 1589, 1590, 1593, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1603, 1616, 1617, 1621, 1622, 1623, 1629, 1632, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658(P), 1660(P), 1661(P), 1663(P), 1664(P), 1665(P), 1666(P), 1667(P), 1572, 1574, 1612, 1614, 1615, 1564, 1567, 1619, 1624, 1625, 1630, 1631, 1633, 1634, 1635, 1636, 1638, 1639, 1648, 1649, 1650, 1565, 1571, 1575, 1577, 1584, 1588, 1591, 1594, 1595, 1602, 1613, 1620, 1627, 1637, 1659, 1671, 1433(P), 1440(P), 1441(P), 1442(P), 1556(P), 1557(P), 1558(P), 1559(P), 1560(P), 1561(P), 1582(P), 1651(P), 1668(P), 1739(P), 1592, 1604, 1611, 1618.

2. Plot numbers acquired in village Urej:

162, 178, 319, 320, 374, 375, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 397, 401, 403, 404, 405, 406, 411, 412, 413, 417, 423, 424, 441, 442, 595, 596, 102, 188, 210, 241, 244, 247, 273, 329, 339, 348, 367, 372, 431, 526, 529, 532, 538, 556, 557, 558, 559, 560, 101(P), 239(P), 167, 185, 541, 564, 200, 206, 207, 370, 373, 420, 433, 534, 535, 539, 209, 238, 243, 245, 249, 332, 334, 337, 350, 355, 356, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 368, 416, 418, 435, 528, 537, 548, 549, 550, 553, 555, 111, 163, 176, 184, 186, 208, 211, 212, 213, 214, 242, 246, 248, 254, 267, 269, 289, 290, 303, 328, 331, 338, 345, 349, 351, 354, 394, 395, 409, 419, 430, 432, 434, 438, 479, 522, 524, 525, 527, 530, 531, 536, 544, 546, 552, 585, 587, 588, 172, 181, 282, 285, 347, 415, 443, 523, 547, 180, 187, 190, 196, 286, 335, 446, 450, 543, 171, 325, 352, 369, 371, 393, 396, 561, 569, 106, 164, 169, 179, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 253, 278, 280, 283, 378, 440, 445, 448, 521, 540, 542, 545, 562, 610, 408, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 591, 592, 593, 170, 449, 191, 192, 288, 291, 294, 295, 297, 298, 300, 301, 302, 316, 317, 318, 340, 341, 342, 407, 321, 324, 326, 327, 399, 400, 422, 425, 426, 427, 428, 436, 174, 175, 166, 183, 270, 376, 533, 182(P), 252, 274, 275, 103, 104, 105, 165, 168, 173, 177, 189, 201, 250, 251, 277, 279, 281, 284, 287, 293, 296, 299, 322, 323, 330, 333, 336, 343, 344, 353, 357, 358, 379, 386, 398, 402, 410, 414, 421, 429, 437, 444, 447, 554, 563, 586, 589, 590, 594, 611, 158(P), 2(P), 215(P), 240(P), 271(P), 304(P), 306(P), 307(P), 315(P), 451(P), 466(P), 551(P), 609(P), 272, 276, 292, 346, 377, 439.

3. Plot numbers acquired in village Deogarh:

153, 417, 424, 425, 442, 445, 456, 460, 473, 480, 516, 524, 543, 568, 836, 887, 894, 900, 901, 903, 905, 907, 417/817, 417/818, 417/819, 432/815, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 438, 446, 454, 820, 821, 895, 898, 899, 451, 440, 441, 515, 906, 908, 212, 418, 419, 421, 427, 434, 435, 452, 457, 462, 464, 470, 472, 476, 479, 525, 549, 838, 550(P), 218, 222, 437, 211, 213, 447, 448, 514, 433, 436, 453, 455, 458, 468, 474, 475, 545, 546, 547, 548, 420, 422, 423, 429, 444, 449, 450, 461, 463, 465, 478, 510, 511, 513, 518, 530, 532, 837, 889, 890, 55, 428, 431, 466, 467, 469, 477, 439, 533, 534, 544, 891, 892, 414, 443, 459, 508, 509, 519, 87, 134, 156, 160, 183, 319, 324, 342, 344, 348, 359, 387, 396, 486, 490, 492, 536, 813, 839, 73, 74, 826, 868, 869, 870, 871, 872, 7, 273, 284, 494, 852, 851(P), 390, 340, 349, 355, 369, 412, 413, 506, 165, 171, 173, 174, 175, 177, 278, 293, 368, 401, 411, 482, 483, 484, 88, 106, 109, 117, 118, 138, 148, 162, 170, 261, 275, 276, 279, 280, 281, 298, 299, 320, 333, 346, 347, 350, 353, 358, 360, 364, 393, 395, 499, 108, 119, 161, 76, 84, 86, 151, 159, 184, 233, 258, 270, 292, 305, 312, 318, 325, 336, 338, 339, 345, 351, 354, 361, 363, 378, 379, 388, 397, 487, 489, 493, 505, 124, 259, 283, 321, 335, 337, 385, 540, 5, 6, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 43, 47, 50, 51, 54, 58, 75, 77, 83, 90, 94, 95, 96, 97, 102, 104, 111, 112, 116, 125, 129, 131, 135, 137, 139, 149, 150, 178, 182, 195, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 307, 309, 311, 313, 314, 326, 327, 399, 504, 812, 822, 827, 828, 829, 830, 833, 834, 840, 862, 864, 875, 876, 878, 63, 64, 71, 72, 81, 91, 128, 192, 193, 202, 203, 204, 209, 520, 521, 811, 879, 882, 883, 884, 3, 4, 32, 33, 36, 52, 101, 107, 187, 188, 196, 197, 198, 306, 310, 398, 863, 877, 430, 155, 158, 372, 374, 375, 376, 367, 392, 21, 26, 44, 48, 57, 67, 68, 78, 79, 80, 92, 100, 103, 105, 115, 120, 122, 123, 126, 127, 152, 169, 181, 247, 251, 253, 254, 256, 257, 294, 328, 332, 357, 362, 400, 141, 142, 143, 144, 146, 166, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 246, 287, 288, 289, 297, 322, 323, 341, 343, 365, 498, 500, 537, 538, 42, 53, 60, 61, 62, 65, 66, 69, 70, 199, 200, 207, 231, 394, 823, 831, 832, 873, 881, 2, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 34, 35, 41, 163, 176, 190, 191, 210, 263, 264, 265, 329, 825, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 861, 850(P), 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 145, 167, 248, 249, 250, 301, 302, 303, 304, 381, 382, 383, 384, 389, 391, 408, 485, 496, 27, 85, 185, 266, 277, 386, 488, 491, 535, 814, 82, 154, 157, 168, 230, 241, 242, 243, 244, 295, 316, 370, 371, 377, 380, 501, 45, 49, 98, 114, 179, 186, 252, 255, 330, 373, 404, 405, 406, 225, 226, 227, 228, 291, 402, 9, 40, 46, 56, 59, 89, 99, 110, 113, 121, 130, 133, 136, 140, 147, 164, 172, 180, 189, 194, 201, 205, 206, 208, 214, 223, 224, 229, 232, 245, 260, 262, 274, 282, 286, 290, 296, 300, 308, 315, 317, 331, 334, 352, 403, 407, 409, 410, 415, 416, 426, 432, 471, 495, 497, 502, 503, 507, 522, 523, 529, 539, 542, 816, 835, 853, 860, 865, 866, 867, 874, 880, 886, 888, 893, 896, 897, 902, 904, 1(P), 526(P), 687(P), 848(P), 849(P), 885(P), 824, 12, 28, 93, 285, 481, 512, 531, 20, 366, 517, 356.

Boundary description:

Boundary Line	Boundary Description
A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A10-A11-A12-A13-A14-A15-A16-A17-A18-A19-A20-A21-A22-A23-A24-A25-A26-A27-A28-A29-A30-A31-A32-A33 (Excluding the area demarcated by points A34-A35-A36-A37-A38-A39-A40-A41)	Line starts from point A1 and passes through point A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A10-A11-A12-A13-A14-A15-A16-A17-A18-A19-A20-A21-A22-A23-A24-A25-A26-A27-A28-A29-A30-A31-A32-and A33 and meets at starting point A1 (Excluding the area demarcated by the Line starts from A34 and passes through A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, and meets at starting point A34).

[F. No. 43015/8/2023-LAIR]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.